

SBEC SUGAR LIMITED



12.02.2021

To,
The Manager
BSE Ltd.
25th floor, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400 001

Subject: Publication of Financial Results December 31, 2020

Scrip Code: 532102

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper clippings of publication of Un-audited (Standalone & Consolidated) Financial Results for the quarter / nine months ended December 31, 2020 published in Financial Express (English) and Haribhoomi (Hindi) newspapers on February 12, 2021.

The same will be available on Company's website.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking You,

For SBEC Sugar Limited

Ankit K. Srivastava

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: A/a

Indian Bank

इंडियन बैंक

क्र इसाहाबाद ALLAHABAD

Zonal Office: Delhi Central ,17, Parliament Street, 1st Floor, Allahabad Bank Building, New Delhi-110001 Corporate Office: 254-260, Avvai Shanmugan Salai, Royapettah Chennai-600014

Corrigendum Please refer to our E-auction Sale Notice. published in this newspaper on 11.02.2021 in S. No. 12 A/c of M/s Arora Enterprises Branch Punjabi Bagh (IB) New Delhi In the above stated S. No. the EMD Amount shall be read as Rs. 2.03

Date: 11.02.2021

Authorised Officer Indian Bank

Lac instead of Rs. 1.03 Lac. Rest shall remain the same.

Place: New Delhi

Barakhamba Road, Connaught Place New Delhi-110001 Corp Office: - B-66, Sector-60, Noida-201301. CIN: L74999DL1994PLC062967 NOTICE NOTICE is hereby given that in terms of Regulation 29 of SEBI(Listing Obligation

& Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with the Bombay Stock Exchange Limited & National Stock Exchange of India Limited, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 12th February, 2021 at the Corporate Office at 4:30 p.m., to inter-alia, consider and take on record the Un-Audited Financial Results for Quarter ended 31st December, 2020 of the Company. By Order of the Board of Directors of Bharatiya Global Infomedia Limited

Date: 06th February, 2021 **Kumar Pushkar (Company Secretary** Place: Noida

Circle Sastra Centre - Budaun C-18/B, 1st Floor, DD Puram, Bareilly (U.P.) Phone: 0581-2302473, 2302474, 2302475

punjab national bank E-mail: cobudaun@pnb.co.in, cs8211@pnb.co.in NOTICE U/S 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of

Arti Bhatia (Director)

Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 It is herby informed that due to non-payment of installment/interest/principal debt, the below mentioned accounts have been classified as Non – Performing Asset as per Reserve Bank of India guidelines. We had demanded the entire outstanding together with interest and other charges due under the below mentioned facilities under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

By Order of the Board of Directors

of BGIL Films & Technologies Limited

Security Interest Act 2002 through registered post on their last available addresses but the notices were either returned undelivered or their acknowledgements were not received and as such they are hereby informed about the same by way of public notice. We hereby call upon the following Borrowers/Guarantors/Mortgagors to pay the amount as mentioned below with further interest at the contracted rate until payment in full, within 60 days (Sixty days) from the date of this publication. In default, besides exercising other rights of the bank as available under Law, the bank is intending to

BGIL FILMS & TECHNOLOGIES LIMITED

Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001

Corp Off.:-B-66, Sec-60, Noida-201301., CIN: L65993DL1989PLC035572

NOTICE is hereby given that in terms of Regulation 29 of SEBI (Listing Obligation

& Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with the Bombay Stock Exchange

Limited (BSE), a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on

Saturday, the 13th February, 2021 at the Corporate Office at 12:30 p.m., to inter

alia, consider and take on record the Un-Audited Financial Results for the Quarte

पंजाब नैश्ननल बैंक

Regd. office:-1203, 12th Floor, Vijaya Building 17

Fina	incial Assets and Enforceme	's as provided under section 13 (4) of the Securitisation a ent of Security Interest Act 2002. The details of the secured vent of non-payment of secured debt is also mentioned bek	assets/s intended to
S. No.	Name of the Branch	Details of property mortaged with	Amount of
	Name & Address of the Account	Details of property mortgaged with the bank and Owner/s of the property	Demand Notice Date of Demand Notice
			Date of NPA
1.	PNB - Junawai	All that part & parcel of property (Land & Building)	
1007/	M/s. Arvind kumar	situated at Moh. Lohia Colony, Ward No-03, Kasba Babrala, Pargana Asadour Teh- Gunnaur Distr-	

de.	THE CONTON	situated at Moh. Lohia Colony, Ward No-03, Kasba	+ further interest		
	M/s. Arvind kumar Bhuvnesh kumar Junawai – Distt – Sambhal	Babrala, Pargana Asadpur Teh- Gunnaur, Distt-	01.02.2021		
	(UP) Proprietor: Mr. Arvind Kumar S/o Roshan Ial Guarantor: Ram Jeet alias Ram Ji Lal S/o Rashan Lal Facility – Over Draft Limit – Rs. 10,00,000/-	132, Sl. No. 12423, Dated 19.12.2014, at SRO-Gunnaur, Total Area- 75.81 sq. mtrs. Standing in the name of Mr. Ramii Lal S/o Sh. Roshan Lal & Arvind Kumar S/o Sh.	02.10.2019		
2.	PNB - Etah - eUBI	All that part & parcel of residential property measuring	Rs.11,71,638/-		
	Smt. Pinki W/o Arvind	112.53 sq. mtrs over Gata No. 1358 standing in the name	+ further interest		
	Kumar	of Pinki W/o Arvind Kumar situated at Mauza - Sirvar, Pargana - Etah Saket, Tahsil & Distt Eath, Uttar	01.02.2021		
	Vill – Daravpu, Post – Barai Etah, (UP) 207001 Guarantor – Arvind Kumar S/o Tahsildar Singh Facility – Housing Loan	Pradesh - 207001 registered with SRO - Etah, vide	31.08.2018		

Further, the Borrowers/Guarantors/Mortgagors are informed as under: That in terms of section 13 (13) of the SARFAESI Act, you shall not, after publication of this notice, transfer by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured assets above referred to, without prior written consent of the Bank. You are also put on notice that any contravention of this statutory injunction/restraint, as provided under the said Act, is an offence. If for any reason, the secured assets are sold or leased out in the ordinary course of business, the sale proceeds or income realised shall be deposited/remitted with/to the Bank. You will have to render proper account of such realisation/income. The bank reserves its rights to enforce other secured assets.

North - Vacant Plot, South - Rasta 15 fit

Please comply with this demand under this notice and avoid all unpleasantness. In case of non-compliance, urther needful action will be resorted to, holding you liable for all costs and consequences This notice is issued without prejudice to the bank taking legal action before DRT/ Court, as the case may be & without prejudice to the bank's rights in the suit/litigation pending before DRT/ Court. Place : Bareilly Authorised Officer, Punjab National Bank Date: 12.02.2021

> BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL BENCH AT HYDERABAD COMPANY PETITION NO. 1/230/HDB/2021

CA (CAA) NO. 91/230/HDB/2020

CONNECTED WITH

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND

IN THE MATTER OF SECTIONS 230 AND 232 READ WITH SECTION 52 OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS AND RULES THEREUNDER AND

"Amalgamated Company") H. & R. Johnson (India) TBK Limited ("Resulting Company No. 1"/ "Demerged

Silica Ceramica Private Limited ("Amalgamating Company No. 2")

Their Respective Shareholders and Creditors

074120MH2010PTC209550), is a private company limited by shares incorporated on 28[™] day of October, 2010 under the provisions of the erstwhile Companies Act, 1956 and having its Registered Office at Ground Floor, Kaddiya Wadi, Azad Road, Near Fire Brigade Station, Vile Parle (East), Mumbai, Maharashtra – 400057Petitioner No.5 Company/ Demerged Company No. 1

NOTICE OF THE HEARING OF COMPANY PETITION BEING ISSUED PURSUANT TO THE ORDER OF THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, BENCH AT HYDERABAD, READ WITH RULE 16 OF THE COMPANIES (COMPROMISES,

Notice is hereby given that a Joint Company Petition under Sections 230 to 232 read with Section 52 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, was presented by Prism Johnson Limited ("Transferee Company"/"Resulting Company No. 2", "Amalgamated Company") and H. & R. Johnson (India) TBK Limited ("Resulting Company No. 1"/"Demerged Company No. 4") and Milano Bathroom Fittings Private Limited ("Amalgamating Company No. 1") and Silica Ceramica Private Limited ("Amalgamating Company No. 2") and TBK Rangoli Tile Bath Kitchen Private Limited ("Demerged Company No. 1") and TBK Venkataramiah Tile Bath Kitchen Private Limited ("Demerged Company No. 2") and TBK Samiyaz Tile Bath Kitchen Private Limited ("Demerged Company No. 3") on 8th day of December, 2020 before the Hon'ble National Company Law Tribunal, Bench at Hyderabad, for obtaining sanction to the Composite Scheme of Arrangement and Amalgamation of the Petitioner Companies involving (i) Demerger of retail/trading business undertakings of TBK Rangoli Tile Bath Kitchen Private Limited, TBK Venkataramiah Tile Bath Kitchen Private Limited and TBK Samiyaz Tile Bath Kitchen Private Limited into its holding company H. & R. Johnson (India) TBK Limited ("HRJTBK") (ii) subsequent demerger of retail/trading business undertaking of HRJTBK into the Company (iii) reduction of share capital of Silica Ceramica Private Limited ("Silica") and (iv) subsequent amalgamation of Milano Bathroom Fittings Private Limited and Silica into Prism Johnson Limited and their

respective shareholders and creditors. The said Company Petition was admitted by the Hon'ble Tribunal on 6th day of January, 2021 and as per the order dated 6[™] January, 2021 of the Hon'ble Tribunal, the said Company Petition is fixed for hearing on Wednesday, the 24th day of February, 2021,

his/her intention, signed by him/her or his/her Advocate along with his/her name and address, to the Petitioner's Counsel at 5-9-163, 5th Floor, Chapel Road, Opposite Methodist Church, Abids, Hyderabad, Telangana - 500001 and at its email ID: lshyd@lakshmisri.com / investor@prismjohnson.in, so as to reach the Petitioner's Counsel not later than two (2) days before the date fixed for the hearing of Petition (i.e. on or before 21 day of February, 2021). Where he/she seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition or a copy of his/her affidavit shall be furnished with such notice.

person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Lakshmikumaran & Sridharan

Attorneys

Hero

BHARATIYA GLOBAL INFOMEDIA LIMITEDI

Regd. office:-1203, 12th Floor, Vijaya Building, 17,

Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj - Phase-II, New Delhi - 110070 CIN: L35911DL1984PLC017354 | Phone: 011-46044220 Fax: 011-46044399 | E-mail: secretarialho@heromotocorp.com Website: www.heromotocorp.com

Hero MotoCorp Limited

('Company') are hereby informed that the Original Share Certificates, details of which are given hereunder have been reported lost/misplaced/stolen/not received and that pursuant to request received from concerned shareholder, the Company intends to issue duplicate share certificate in lieu of the said Original Share Certificate (Face Value Rs. 2/-) in her favour

PUBLIC NOTICE FOR ISSUE OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATE

Members of the general public and existing shareholders of Hero MotoCorp Ltd

Folio No.	Shareholders Name	Face Value	Distinctive Nos.	Certificate No.(s)	No. of Shares	
HML0004222	HS	Rs.10/-	12027139 -12027158	116740	20	
	CHANDRAKANTA	Rs.2/-	43102076-43102175	527558	100	

Any person having objections to issue of duplicate Share Certificate, as mentioned herein above, may submit the same, in writing, with the Company marked to the 'Secretarial Department' at its Registered Office or send an email at secretarialho@heromotocorp.com within 7 days from the date of publication of this Notice. In the meanwhile, members of the public are hereby cautioned against

dealing in the above mentioned Share Certificates. For Hero MotoCorp Ltd. Sd/

Neerja Sharma Place: New Delhi Company Secretary & Chief Compliance Officer Date: 11.02.2021

SARNIMAL INVESTMENT LIMITED

CIN: L65100DL1981PLC012431

Regd. Off: 439, Vikas Marg, Jagriti Enclave, Delhi-110092 Email: sarnimalinvestltd@gmail.com STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS

OR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2020

(Rs. in Lakhs) Nine Months Quarter Quarter Ended Ended Ended **Particulars** 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) Total Income from Operations 11.55 335.00 Net Profit / (Loss) from ordinary before -0.48 Net Profit / (Loss) before tax -0.480.49 3.15 Net Profit/(Loss) for the period after tax -0.480.25 2.33 Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit/ (Loss) and other 0.25 Comprehensive Income for the period) -0.482.33 Equity share Capital 449.8 449.8 449.8 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earning Per share (Face Value of Rs. 1/- each) a Basic 0.0006 -0.001b Diluted 0.001 -0.0010.0006

NOTE: The above is an extract of the detailed format of the financial results for the Quarter and Nine months ended 31st December, 2020, filed with the Stock Exchange. The full format of the financial results for the Quarter and Nine months ended 31st December, 2020 is available on the website of the Stock Exchange www.msei.in and on Company's website www.sarnimal.com For Sarnimal Investment Limited

Place: Delhi Sudhir Kumar Agarwal (Director)

UO.

Regd. Off.: E-521, Sitapura Industrial Area, Jaipur-22 (Rai.) CIN: L24119RJ1993PLC007148 Website: www.uniqueorganics.com

E-mail: compliance@uniqueorganics.com Tel.: 91-141-2770315 / 2770509

Extract of the Standalone Un-Audited Financial Results for 3rd Quarter Ended 31.12.2020. (in Lakhs except EPS

SI. No.	Particulars	3 Months ended (31.12.2020) Un-Audited	Corresponding 3 months ended in the previous year (31.12.2019) Un-Audited
1	Total income from operations	1,521.15	1,051.06
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	20.35	11.60
3	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	20.35	11.60
4	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	15.06	8.59
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	15.06	8.59
6	Equity Share Capital	595.30	595.30
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year	632.73	628.42
8	Earning Per Share (of Face Value Rs. 10/- each) (for continuining and discontinuined operations) -		
	Basic:	0.25	0.14
177	Diluted	0.25	0.14

NOTES: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirments) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and Company's website www.uniqueorganics.com/ investor/financial-reports/ For Unique Organics Limited

Place : Jaipur Dated: 11.02.2021

J. P. Kanodia Managing Director

31.12.2019

(Un-Audited 6.94

(3.57)

(3.57)

(3.57)

(3.57)

64.70

(0.55)

(0.55)

DIN:02305246

Tel No: 0141-2214074, 2211658 FACTORY: F-86 HIRAWALA INDUSTRIAL AREA, KANOTA, DISTT. JAIPUR-303012, INDIA Web Site: www.highstreetfilatex.in E-mail: highstreet.filatex@gmail.com

EXTRACTS OF THE STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / NINE MONTHS ENDED DECEMBER, 2020 (Rs. in Lace ths Quarter Ended

	THE QUARTER / NINE MONTHS	ENDED DECEMBER			
S.N.	Particulars	Quarter Ended			
		31.12.2020	Ended 31.12.20		
		(Un-Audited)	(Audited		
1	Total Income from operations	0.00	1.58		
2	Net Profit /(Loss) for the Period(Before Tax, Exceptional And/or Extraordinary Items)	(4.82)	(15.39		
3	Net Profit /(Loss) for the Period before Tax(After Exceptional And/or Extraordinary Items)	(4.82)	(15.39		
4	Net Profit /(Loss) for the Period after tax(After Exceptional And/or Extraordinary Items)	(4.82)	(15.39		
5	Total Comprehensive Income for the period(Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income after tax)	(4.82)	(15.39		
6	Equity Share Capital	64.70	64.70		
7	Reserve (Excluding Revaluation Reserve as Show in the Balance Sheet of Previous Year)		(320.08		
8	Foring Per share (Face Value Re				

Earing Per share (Face Value Rs. 10/-each) Basic: (0.74)(2.38)Diluted: (0.74)(2.38)The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the

Quarter/ Nine Months ended Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) viz www.bseindia.com and the same is also available or the website of the Company viz www.highstreetfilatex.in. #-Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and

Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable

By the Order of the Board For High Street Filatex Limited Bhagwan Singh Whole-time Director

Date: February 11, 2021 financialexp.epap

b Diluted

amednded).

Place: New Delhi

Ludhiana, Punjab - 141003. Contact No. 07696007660

Branch: SCO 10, 11 Firoi Gandhi Market,

www.dcbbank.com

AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF

IMMOVABLE PROPERTY UNDER RULE 9(1) OF SARFAESI ACT SALE Notice for sale of Immovable Assets Charged to the DCB BANK UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 read with proviso to 8(6) of the security interest (Enforcement) Rule.

Notice is hereby given to the public in general and to the borrower, co-borrowers and the guarantors in particular, by the Authorized Officer, that the under mentioned property is mortgaged to DCB Bank Limited. The Authorized Officer of the Bank has taken the physical possession under the provision of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 on 31,12,2020. The property will be sold by tender cum public auction as mentioned below for recovery of under mentioned dues and further interest, charges and cost etc. as per the below details:-

The property will be sold "as is where is", "as is what is" and "Whatever there is" condition.

Name of the Borrower & Guarantors	Reserve Price	Earnest Money Deposit (EMD)	Date & Time of Inspection	Date & Time of Auction	Type of Possession
Jaspreet Singh And Ravinder Kaur	Rs. 2,60,00,000/-	Rs. 26,00,000/-	3-03-2021 11:30 AM To 4:00 PM	16-03-2021 12:30 PM To 4:00 PM	PHYSICAL
Name and the second	operty: House No. 39	J 9-A On Residential Plot No. 1			L

487, 489, 490, 493, 495, Khata No. 94/100 Vide Vasika No. 2147 Ludhiana Punjab - 141013

Offers are invited in sealed envelope by the undersigned from the intending buyers / bidders for the purchase of the above said property. The interested buyer may send their offer for the above property in the sealed envelope along with Demand Draft in favor of "DCB Bank Limited", Ludhiana toward the "Earnest Money Deposit" at DCB Bank Limited, Branch: SCO 10, 11 Firoj Gandhi Market, Ludhiana, Punjab - 141003 on or before 06:00 PM of 15-03-2021. The sealed offer will be opened on 16-03-2021 at 12:30 PM on the date of auction at above mentioned branch. The EMD is refundable without any interest if the bid is not successful. The intending buyer may inspect the property / asset latest by the date mentioned above for which they may contact Gurjinder Singh (07696007660). For detailed terms and conditions of the auction sale please refer to the link https://www.dcbbank.com/cms/showpage/page/customer-corner

Place : Ludhiana (Punjab)

Date: 12.02.2021

DCB Bank Limited

Authorized Officer

DCB BANK

BGIL

ended on 31st December, 2020.

Limit - Rs. 9,80,000/-

Date: 06th February, 2021

Place: Noida

ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 read with proviso to 8(6) of the security Interest (Enforcement) Rule. Notice is hereby given to the public in general and to the borrower, co-borrowers and the guarantors in particular, by the Authorized Officer, that the under mentioned property is mortgaged to DCB Bank Limited. The Authorized Officer of the Bank has taken the physical possession under the provision of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 on 05.01.2021 The property will be sold by tender cum public auction as mentioned below for recovery of under mentioned dues and further interest, charges and cost etc. as per the below details:-

The property will be sold "as is where is", "as is what is" and "Whatever there is" condition.

Name of the Borrower & Guarantors	Reserve Price	Earnest Money Deposit (EMD)	Date & Time of Inspection	Date & Time of Auction	Type of Possession
Gurinder Kaur, Jasmeet Singh Sachar, Uttam-Singh, Gagandeep Kaur	Rs. 38,00,000	Rs. 3,80.000	3-03-2021 11:30 AM To 4:00 PM	16-03-2021 12:30 PM To 4:00 PM	PHYSICAL

Offers are invited in sealed envelope by the undersigned from the intending buyers / bidders for the purchase of the above said property. The interested buyer may send their offer for the above property in the sealed envelope along with Demand Draft in favor of "DCB Bank Limited" Ludhiana toward the "Earnest Money Deposit" at DCB Bank Limited, Branch: SCO 10, 11 Firoj Gandhi Market, Ludhiana, Punjab - 141003 on or before 06:00 PM of 15-03-2021. The sealed offer will be opened on 16-03-2021 at 12:30 PM on the date of auction at above mentioned branch. The EMD is refundable without any interest if the bid is not successful. The intending buyer may inspect the property.

asset latest by the date mentioned above for which they may contact Gurjinder Singh (07696007660). For detailed terms and conditions of the auction sale please refer to the link https://www.dcbbank.com/cms/showpage/page/customer-corner

POSSESSION NOTICE

Jhandewalan Extn., New Delhi-110055, Ph.: 01166083006/65 CIN: L65190MH2004GOI148838

below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said

S. No.	Name of Borrower/ Co-borrower/Guarantor and owner of the property	Date of Demand Notice	Date of Symbolic Possession	Description of Mortagaged Property	Amount O/s as mentioned in the notice u/s 13(2)
1.	Mr. Akhil Devshali	08.06.2020	09.02.2021	CVN-T 06-03-03, 3rd Floor, Tower T-06, CHD VANN Sec- 71, Gurgaon, Haryana- 122018	Eighty Four Lakh Sixt
2.	Mr. Kuljit Singh Hooda	08.06.2020	09.02.2021	CVN-T 10-03-03, 3rd Floor, Tower T-10, CHD VANN, Sec-71, Gurgaon, Haryana- 122018	Ninety Four Lakh Ninety
3.	Mr. Keshav Kumar and Mrs. Neha Devi	16.01.2020	09.02.2021	CVN-T 10-07-03, 7th Floor, Tower T-10, CHD VANN Sec- 71, Gurgaon, Haryana- 122018	Eighty Six Lakh Twenty Fou

Date: 11.02.2021 Place: New Delhi Authorised Officer, IDBI Bank Ltd.

> CIN: L15421UP1991PLC019160 Regd. Off.: Village Loyan Malakpur, Thesil Baraut, District: Baghpat, Uttar Pradesh-250611 Tel.: 01234-259206 Fax:+91-1234-259200

E-mail: investors@sbecsugar.com, Website: www.sbecsugar.com

			STANDALON	E	CONSOLIDATED		
Sr. No.	Particulars	3 Months ended December 31, 2020 Un-Audited	Nine Months ended December 31, 2020 Un-Audited	Corresponding 3 Months ended December 31, 2019 Un-Audited	3 Months ended December 31, 2020 Un-Audited	Nine Months ended December 31, 2020 Un-Audited	Correspondin 3 Months ended December 31, 2019 Un-Audited
1	Total Income from Operations (Net) Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or	13,496.73	40,835.47	10,670.89	13,775.82	41,358.45	10,856.2
3	Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or	(2,286.18)	(4,313.79)	(417.79)	(2,419.64)	(4,975.56)	(637.01
4	Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or	(2,286.18)	(4,313.79)	(417.79)	(2,419.64)	(4,975.56)	(637.01
5	Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other	(2,286.18)	(4,313.79)	(417.79)	(2,419.64)	(4,975.56)	(637.01
6 7	Comprehensive Income(after tax)] Equity Share Capital Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of	(2,293.57) 4,765.39	, ,		(2,428.07) 4,765.39	(5,000.83) 4,765.39	,
8	previous year Earnings Per Share (EPS) (for continuing and discontinued operations)	-			-	-	

NOTES: The above is an extract of the detailed format of Quarterly results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing and other Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financia Results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on Company's website a

(9.05)

(4.80)

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board at their meetings held on February 11, 2021 The Financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed

> Umesh Kumar Modi Director

(10.44)

(1.34)

Place: Maharashtra Date: 12.02.2021

Dated: February 11, 2021 Place: Jaipur

Branch: SCO 10, 11 Firoi Gandhi Market, DCB BANK Ludhiana, Punjab - 141003. Contact No. 07696007660 www.dcbbank.com

AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY UNDER RULE 9(1) OF SARFAESI ACT

SALE Notice for sale of Immovable Assets Charged to the DCB BANK UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL

Name of the Borrower	Reserve Price	Earnest Money Deposit	Date & Time of	Date & Time	Type of
& Guarantors		(EMD)	Inspection	of Auction	Possession
Gurinder Kaur, Jasmeet Singh Sachar, Uttam-Singh, Gagandeep Kaur	Rs. 38,00,000	Rs. 3,80.000	3-03-2021 11:30 AM To 4:00 PM	16-03-2021 12:30 PM To 4:00 PM	PHYSICAL

Date: 12.02.2021 Authorized Officer

DCB Bank Limited Place: Ludhiana (Punjab) **IDBI** BANK IDBI Bank Ltd., Retail Recovery, E-1, First Floor, Videocon Tower,

Notice is hereby given under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The Bank Issued demand notices to the following Borrower/Co -Borrower/Guarantor on the date mentioned against their name calling upon them to repay the amount within Sixty days from the date of receipt of said notice. Since, they failed to repay the amount, notice is hereby given to them and to the public in general that the undersigned has taken the possession of the property described herein

Rules on the dates mentioned against the name of the borrower. The borrower, in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property. Any dealing with the property will be subject to the charge of IDBI Bank Limited for the amount given against their names with future interest and charges thereon.

No.		Name of Borrower/ Co-borrower/Guarantor and owner of the property	-borrower/Guarantor Demand Symbolic owner of the property Notice Possession		Description of Mortagaged Property	Amount O/s as mentioned in the notice u/s 13(2)		
	1.	Mr. Akhil Devshali	08.06.2020	09.02.2021	CVN-T 06-03-03, 3rd Floor, Tower T-06, CHD VANN Sec- 71, Gurgaon, Haryana- 122018	Eighty Four Lakh Sixty		
	2.	Mr. Kuljit Singh Hooda	08.06.2020	09.02.2021	CVN-T 10-03-03, 3rd Floor, Tower T-10, CHD VANN, Sec-71, Gurgaon, Haryana- 122018	Ninety Four Lakh Ninety		
	3.	Mr. Keshav Kumar and Mrs. Neha Devi	16.01.2020	09.02.2021	CVN-T 10-07-03, 7th Floor, Tower T-10, CHD VANN Sec- 71, Gurgaon, Haryana- 122018	Eighty Six Lakh Twenty Four		

SBEC SUGAR LIMITED

EXTRACT OF THE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2020 (Rs. In Lacs)

.	3	3 Months	Nine	Corresponding	3 Months	Nine	Corresponding
Sr. No.		ended	Months	3 Months	ended	Months	3 Months
INO.		December	ended	ended	December	ended	ended
		31, 2020	December	December	31, 2020	December	December
ľ			31, 2020	31, 2019		31, 2020	31, 2019
	c	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited
1	Total Income from Operations (Net)	13,496.73	40,835.47	10,670.89	13,775.82	41,358.45	10,856.28
2	Net Profit / (Loss) for the period						
	(before Tax, Exceptional and/or						
	Extraordinary items)	(2,286.18)	(4,313.79)	(417.79)	(2,419.64)	(4,975.56)	(637.01)
3	Net Profit / (Loss) for the period						
	before tax (after Exceptional and/or						
	Extraordinary items)	(2,286.18)	(4,313.79)	(417.79)	(2,419.64)	(4,975.56)	(637.01)
4	Net Profit/(Loss) for the period after						
	tax (after exceptional and/or						
	Extraordinary items)	(2,286.18)	(4,313.79)	(417.79)	(2,419.64)	(4,975.56)	(637.01)
5	Total Comprehensive Income for the						
ŀ	period [Comprising Profit/(Loss) for the						
	period (after tax) and Other						
	Comprehensive Income(after tax)]	(2,293.57)	, , ,	1 8 6 1	(2,428.07)	(5,000.83)	
6	Equity Share Capital	4,765.39	4,765.39	4,765.39	4,765.39	4,765.39	4,765.39
7	Reserve excluding Revaluation						
	Reserves as per balance sheet of						
	previous year	-	-	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (EPS)						
	(for continuing and discontinued						
	operations)						
a	Basic	(4.80)	(9.05)	(0.04)	(5.08)	(10.44)	(1.34)

under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rule (A By order of Board For SBEC Sugar Limited

(0.04)

(5.08)

DIN: 00002757

In the matter of Composite Scheme of Arrangement and Amalgamation Amongst Prism Johnson Limited ("Transferee Company"/ "Resulting Company No. 2"/

Company No. 4") Milano Bathroom Fittings Private Limited ("Amalgamating Company No. 1")

TBK Rangoli Tile Bath Kitchen Private Limited ("Demerged Company No. 1")

TBK Venkataramiah Tile Bath Kitchen Private Limited ("Demerged Company No. 2") TBK Samiyaz Tile Bath Kitchen Private Limited ("Demerged Company No. 3")

TBK Rangoli Tile Bath Kitchen Private Limited ("TBK Rangoli") (CIN:

ARRANGEMENTS AND AMALGAMATIONS) RULES, 2016

before Court - I of the Hon'ble NCLT, Hyderabad Bench at 10:30 a.m. Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send notice of

A copy of the Petition will be furnished by the Petitioner Company or its Counsel to any

Counsel for the Petitioner Companies


New Delhi

Sd/-

सेंसेक्स २२२ अंक और निफ्टी भी मजबूत होकर नई ऊंचाई पर बंद

एजेंसी ▶▶। मुंबई

बीएसई सेंसेक्स बहस्पतिवार को 222 अंक की तेजी के साथ नई ऊंचा पर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर मजबूत रुख के बीच सेंसेक्स में अच्छी



रिलायंस इंडस्टीज में 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी

हिस्सेदारी रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज में बढ़त से बाजार में तेर्जी आयी। उतार-चढाव भरे कारोबार मे 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 222.13 अंक यानी 0.43 प्रतिशत

मजबूत होकर 51,531.52 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 66.80 अंक यानी 0.44 प्रतिशत मजबूत होकर

15,173,30 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में सर्वाधिक लाभ में रिलायंस इंडस्टीज रही। इसमें 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई।

<mark>इन शेयरों में रहा उतार-चढ़ाव</mark> : इसके अलावा सन फार्मा, पावरग्रिड, बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया और एचसीएल टेक में भी तेजी रही। दूसरी तरफ, जिन शेयरों में गिरावट दर्ज की गयी, उनमें टाइटन, एल एंड टी, ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक और आईटीसी शामिल हैं।

एशिया के अन्य बाजारों में भी रही तेजी

एशिया के अन्य बाजारों में शंघाई कंपोजिट इंडेक्स, हांगकांग का हैंगसेंग, जापान का निक्की और दक्षिण कोरिया का कोस्पी लाभ के साथ बंद हुए। यूरोप के प्रमुख बाजारों में भी शुरूआती कारोबार में तेजी रही। इस बींच, वैश्विक तेल मानक बेंट कूड 0.67 प्रतिशत मजबूत होकर ६१.०६ डॉलर) प्रति

सोने में मामूली तेजी, चांदी में 454 रुपए का उछा<mark>ल</mark>

नई दिल्ली। वैश्विक सर्राफा कीमतों में आई मजबूती के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बहस्पतिवार को सोना 36 रुपए की मामुर्ल



मद (मदें)

प्रकाशन की तिथि

ऑनलाइन आवेदन जमा हेत प्रारम्भ तिथि

तेजी के साथ 47.509 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले दिन सोना 47,473 रुप<mark>ये</mark> पर बंद हुआ था। चांदी भी 454 रुपये के उछाल के साथ 69,030 रुपये प्रति किले

ग्राम पर पहुंच गयी। पिछले कारोबारी सत्र में यह 68,576 रुपये प्रति किलो के भाव पर थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लाभ के साथ 1.844 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस हो गया जबकि चांदी 27.18 डॉलर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रही।

एसबीईसी शुगर लिमिटेड CIN: L15421UP1991PLC019190

मलकपुर, तहसील बड़ौत, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश-250611 Tel.: 01234-259206 Fax:+91-1234-259200

31 दिसम्बर 2020 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु अअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार

		7	टैंडअलोन	-	समेकित				
क्र. सं.	विवरण	31 दिसम्बर 2020 को समाप्त 3 माह अअंकेक्षित	31 दिसम्बर 2020 को समाप्त नौ माह अअंकेक्षित	31 दिसम्बर 2019 को समाप्त अनुकूल 3 माह अअंकेक्षित	31 दिसम्बर 2020 को समाप्त 3 माह अअंकेक्षित	31 दिसम्बर 2020 को समाप्त नौ माह अअंकेक्षित	31 दिसम्बर 2019 को समाप्त अनुकृत 3 माह अअंकेक्षित		
	प्रचालन से कुल आय (शुद्ध) अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों	13,496.73	40,835.47	10,670.89	13,775.82	41,358.45	10,856.28		
	से पूर्व) कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा	(2,286.18)	(4,313.79)	(417.79)	(2,419.64)	(4,975.56)	(637.01 <mark>)</mark>		
	असामान्य मदों के बाद) कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा	(2,286.18)	(4,313.79)	(417.79)	(2,419.64)	(4,975.56)	(637.01)		
	असामान्य मदों के बाद) अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु निहित लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक	(2,286.18)	(4,313.79)	(417.79)	(2,419.64)	(4,975.56)	(637.01)		
	आय (कर के बाद)]	(2,293.57)		(417.97)	(2,428.07)	(5,000.83)	(637.15)		
	इक्विटी शेयर कैपिटल पूर्ववर्ती वर्ष को बैलेंस शीट के अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर रिजर्व्स	4,765.39	4,765.39	4,765.39	4,765.39	4,765.39	4,765.39		
	अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस) (निरंतर और अनिरंतर प्रचालनों हेतु)		,,,,,						
	बेसिक	(4.80)	(9.05)	(0.04)	(5.08)	(10.44)	(1.3 <mark>4)</mark>		
)	डायल्युटेड	(4.80)	(9.05)	(0.04)	(5.08)	(10.44)	(1.3 <mark>4)</mark>		

स्थान : नई दिल्ली

देनांक : 11 फरवरी 202

उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग एवं अन्य घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के पा<mark>स</mark> दायर किये गये तैमाहिक परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार हैं। तैमाहिक विचीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचें<mark>ज</mark> की वेबसाइट www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.sbecsugar.com पर उपलब्ध है। उपरोक्त परिणामों की समीक्षा ऑडिट कमेटी द्वारा कर ली गई तथा 11 फरवरी 2021 को आयोजित उनकी बैटकी

में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये गये हैं। वित्तीय परिणाम कम्पनी (भारतीय लेखा मानदंड) नियम (संशोधित अनुसार) के साथ पठित कम्पनी अधिनिय<mark>म</mark> 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित अनुसार भारतीय लेखा मानदंड (Ind-AS) के अनुरूप तैयार किये गये हैं

बोर्ड के आदेशानुसा<mark>र</mark> कृते एसबीईसी शूगर लिमिटे<mark>ड</mark>

> हस्ता/ उमेश कुमार मोद<mark>ी</mark> निदेशक

डीआईएन : 00002757

फ्रिक इंडिया लिभिटेड

CIN: L74899HR1962PLC002618 पंजीकृत कार्यालय : 21.5 किमी., मेन मथुरा रोड, फरीदाबाद-121003

Telephone No. 01292275691-94 Email: fbd@frickmail.com www.frickweb.com 31.12.2020 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु अअंकेक्षित वितीय परिणाम

_							लाखों में)
5.	विवरण		माप्त तिमाही		समाप्त	समाप्त वर्ष	
i.	199(3)	31/12/2020 (असंकेक्षित)	30/09/2020 (अअंकेसित)	31/12/2019 (अअंकेसित)	31/12/2020 (अअंकेशित)	31/12/2019 (अअंकेक्षित)	31/03/2020 (अंकेक्षित)
	आय						
	प्रचालनों से आय	5,661.29	4,456.10	6,008.91	14,393.98	15,100.85	22,200.04
	अन्य आय	349.16	182.79	160.63	725.42	414.08	500.87
	कुल आय (I+II)	6,010.45	4,638.89	6,169.54	15,119.40	15,514.93	22,700.91
	ट्यय			DANGERSON		300000000000000000000000000000000000000	
	उपभोग की गई सामग्री की कीमत	3,553.13	2,769.67	3,590.25	8,875.49	9,827.97	14,153.85
	तैयार सामान, चालू कार्य और स्टॉक इन ट्रेड की						
	इनवेंट्रीज में परिवर्तन	71.14	133.80	252.00	311.54	(171.36)	(191.83)
	कर्मचारी लाभ व्यय	932.31	931.93	924.99	2,657.02	2,815.44	3,814.60
	वित्तीय लागत	53.46	45.20	60.40	142.07	168.90	250.97
	अवमूल्यन एवं अमोटांइजेशन व्यय	56.88	58.27	69.67	172.85	194.90	264.23
	अन्य व्यय	609.25	356.41	644.76	1,240.74	1,614.70	2,555.04
	कुल व्यय (IV)	5,276.17	4,295.28	5,542.07	13,399.71	14,450.55	20,846.86
	कर से पूर्व लाभ (III-IV)	734.28	343.61	627.47	1,719.69	1,064.38	1,854.05
	कर व्यय	AND STORE	N. 60 N. 60	SALESSAN AND A		38	
	ए) वर्तमान कर	184.80	86.48	157.92	432.81	267.88	530.00
	ची) विलम्बित कर	14.04	3.68	(17.75)	13.67	(47.59)	(36.84)
	सी) पूर्ववर्ती वर्षी हेतु आयकर	-	-			-	(100.02)
	कुल कर (VI)	198.84	90.16	140.17	446.48	220.29	393.14
	अवधि हेतु कर से पूर्व लाभ (V-VI)	535.44	253.45	487.30	1,273.21	844.09	1,460.91
I	अन्य व्यापक आय (करों का शुद्ध)	100000000000000000000000000000000000000	1000,000,000	Aug. 4000		0.000	
	ए. (i) मदें जो लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं						
	की जाएंगी :	12.94	12.94	(6.50)	38.82	(18.00)	51.76
	(॥) मदों के सम्बन्ध में आयकर जी लाभ अथवा		11000000				
	हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएंगी :	(3.26)	(3.25)	1.64	(9.77)	4.53	(13.03)
	बी. (i) मदें जो लोभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत की	22 85		15000000	1	7,738,3400	
	जाएंगी :	-	-	2	2	2	
	(II) मदों के सम्बन्ध में आयकर जो लाभ अथवा						
	हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा :	-	-			-	-
	कुल अन्य व्यापक आय (VIII)	9.68	9.69	(4.86)	29.05	(13.47)	38.73
	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (VII+VIII)	545.12	263.14	482.44	1,302.26	830.62	1,499.64
	अन्य इक्विटी	78.20 V/T	(T.R.E.) (A)	27/8/24/3/4/	61.50-11.50	200,100	16,648.61
	भुगतान किया गया इक्विटी शेयर कैपिटल						104-2010/14/101
	(र. 10/- प्रत्येक का प्रत्यक्ष मृल्य)	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
	अर्जन प्रति शेयर (इंपीएस) (रु. / शेयर)						
	ए) बेसिक ईपीएस – वार्षिकत नहीं	89.24	42.24	81.22	212.21	140.69	243.49
	बी) डायल्युटिड ईपीएस – वार्षिकृत नहीं	89.24	42.24	81.22	212.21	140.69	243.49

टिप्पणी :-

उपरोक्त परिणामों की समीक्षा ऑडिट कमेटी द्वारा कर ली गई और निदेशक मंडल द्वारा इसकी दिनांक 11.02.2021 को आयोजित बैटक में निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड पर लिये गये और कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों ने इसकी सीमित समीक्षा कर ली है।

कम्पनी प्राथमिक तौर पर इंडस्टीयल रेफ्रीजरेशन और एयरकंडीशनिंग सिस्टम के निर्माण, आपति और निष्पादन के बिजनेस में लगी हः है। चुंकि इन गतिविधियों की मूल प्रकृति जोखिम व वापसी के उसी प्रकार के सैट द्वारा अधिशासित है, अतः IND AS-108 ''ऑपरेटिंग

[े] के अनुसार केवल एक रिपोटेंबल सेगमेंट है। पूर्ववर्ती अवधि/वर्षे के आंकड़े आवश्यकतानुसार रिग्नुपुड / रिअरॅंज्ड कर लिये गये हैं।

कृते व बोर्ड की ओर से फ्रिक इंडिया लिमिटेड दिनांक : 11.02.2021 जसमोहन सिंह प्रबंध निदेशक

विज्ञा. सं. 1/2021

णा कमेच ो चयन आयोग नं. 67-70, सेक्टर-2, पंचकूला-134151 वेबसाइट : www.hssc.gov.in

ऑनलाइन			
शुल्क जम			
विवरणों	की तालिका	*	
क्र. सं.	मद		पृष्ठ सं,
1.1	आवेदन आमंत्रण		1
1.2	आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन भरने हेतु प्रक्रिया / नि	र्देश / दिशा-निर्देश	1
13	आवेदन प्रपत्र भरने के लिये विशेष निर्देश		2
2.1 2.2 2.3 2.3(ए)	पटों और योग्यताओं का विवरण	3	
2.2	शुल्क का विवरण	5	
2.3	चयन हेतू मानदंड, परीक्षा व पाठ्यक्रम	5	
2.3(以)	परीक्षा कार्यक्रम	5	
2.4	नियामक फ्रेमबर्क		- 6
2.4 2.5	पूर्व सैनिकों के आश्रित शब्द की परिभाषाएं	7	
3.1	आवेदन प्रपत्र के साथ अपलोड किये जाने वाले	7	
3.2	दस्तावेजों की संबीक्षा	8	
3.3	कदाचार के अपराधी पाये गये उम्मीदवारों के वि	8	
4	आवेदन के निरस्तीकरण के संभावित कारण	8	
4 5	सेवा नियमों हेतु सम्बद्ध विभाग की वेबसाइट दे		

टाइमलाइन

11.02.202

16.02.2021

1.1 आवेदन आमंत्रण

युआरएल पता अर्थात् http://adv12021.hryssc.in/StaticPages/HomePage.aspx के माध्यम से पैराग्राफ 2.1 में वर्णित 534 पदों (पीजीटी संस्कृत)— एच.इं.एस.—॥ (युप-चो सेवाएं) की सोधो भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन 16.02.2021 से 03.03.2021 को अप. 11.59 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। इसके पश्चात वेबसाइट लिंक अयोग्य बन जाएगा।

आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन भरने हेतु प्रक्रिया / निर्देश / दिशा-निर्देश

आवेदन पपत्र के ऑनलाइन धरने के सम्बन्ध में आवेदक हेत सभी सामान्य / विशेष निर्देश निम्नलिखित हैं।

- ऑनलाइन आवेटन पपुत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि का इंतनार किये बिना प्रह्मांग्र में ही ऑनलाइन आवेटन करें। आरक्षित श्रेणियों से सम्बन्धित उम्मीदवार जो सामान्य श्रेणी से सम्बन्धित पद के तहत आवेदन करना चाहते हैं. को ┛ii) (बी) आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी हेतु निर्धारित अनुसार जमा करवाना होगा। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे सामान्य श्रेणी उम्मीदवारी हेतु पात्रता शर्ती को पूरा करते हैं।
- ऑनलाइन आबेदन प्रपत्र भरना प्रारम्भ करने से पूर्व कृपया निर्देशों और प्रक्रियाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें और जानकारी 🖡 की सटीकता सिनश्चित करने के लिये प्रिंटआउट प्राप्त करने के पश्चात् आवेदन प्रपत्र में भरे गये सभी विवारणों और 122 शुल्क का विवारण दुस्तावेजों की जांच और उनकी सत्यतता सुनिश्चित करने के उपरांत आवेदन अन्तिम रूप से जमा करें। उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय सभी विवरण भरने चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात्,
- रजिस्ट्रेशन नं, और पासवर्ड जनरेट किया जाएगा। ई-चालान प्रपत्र तथा अपने ऑनलाइन भरे हुये आवेदन प्रपत्र की रिप्रिटिंग हेतु और अपने आवेदन स्तर के भविष्य में संदर्भ हेतु रजिस्ट्रेशन नं. और पासवर्ड स्क्रीन का प्रिंटआउट लें। आवेदन सफलतापूर्वक जमा करवाने के पश्चातु उम्मीदवार आवेदन प्रपन्न और ई-चालान का अन्तिम प्रिंटआउट दोवारा ले सकते हैं।
- सभी अपलोडेड दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ऐसे करने के लिये बुलाने पर अवश्य लाई जानी होगी। <u>जो दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया है उस पर विचार नहीं किया जाएगा।</u>
- आवेदन प्रपन्न पर किसी विकरण को बदलने हेत कोई आग्रह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र अथवा डाउनलोडेंड आवेदन प्रपत्र की प्रति हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्वीकार
- (आई) चयन हरियाणा सरकार अधिसूचना सं. 523-3जीएस-70/2068 दिनांक 28.01.1970 और उसमें समय-समय पर । भविष्य में संशोधित प्रावधानों के अनुसार होगा।
- जो उम्मीदवार कट ऑफ तिथि को योग्यता / पात्रता शर्त पूरी नहीं करते हैं, उनके आवेदन ऑनलाइन आवेदन सिस्टम हारा स्वीकार नहीं किये जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता / पात्रता शर्ते और सामाजिक-आर्थिक मानदंड इत्यादि से सम्बन्धित सभी प्रमाण-पत्र / दस्तायेज ऑनलाइन आयेदन करने के लिये निर्धारित अन्तिम तिथि अर्थात 03.03.2021 जैसा कि विज्ञापन में दिया गया है, के सम्बन्ध में सुनिश्चित किये जाएंगे जो अन्तिम तिथि के अनुसार होगी। <u>कट ऑफ तिथि के</u> पश्चात जारी किसी प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दस्तावेजों की संबीक्षा नहीं की जाती और इनकी जांच केवल संबीक्षा के समय ही होती है।
- यदि उम्मीदवार के विरूद्ध कोई एफआईआर दायर की गई है अथवा लम्बित है, यदि उसके विरूद्ध आरोप निर्धारित किये गये हैं, तो उसे आवेदन हेतु पात्र नहीं समझा जायेगा। महत्वपूर्ण टिप्पणी :-
- उम्मीदवारों को अपना आवेदन प्रपन्न में नाम, पिता का नाम / माता का नाम, जनमतिथि और श्रेणी, योग्यत, प्राप्तांक, उत्तीर्ण वर्ष, फोटो. हस्ताक्षर, विवरण और शुल्क इत्यादि ध्यानपूर्वक भरने का परामर्श दिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जमा करवाने के उपरांत किसी विवरण के परिवर्तन हेतु किसी आग्रह पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्रपत्र अन्तिम रूप से जमा करवाने के पश्चात्, किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी, उम्मीदवार आवेदन प्रपत्र 🖣 सी
- के ढेटा में किसी गलती और उसके द्वारा भुगतान किये गये शुल्क हेतु उत्तरदायों होगा / होगी। यदि उम्मीदवार यह समझता है कि उसके द्वारा फार्म गलती से भरा गया है तो उसे अन्तिम तिथि से पूर्व नये सिरे से अपेक्षित | डी, शुल्क सहित एक नथे सिरे से ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरना चाहिए।

आवेदन प्रपत्र भरने के लिये विशेष निर्देश

- ऑनलाइन आवेदन युआरएल पता अर्थात् http://adv12021.hryssc.in/StaticPages/ HomePage.aspx का
- किसी आवेदन की स्वीकृति अथवा निरस्तीकरण, पात्रता / उम्मीदवारों की उपयुक्तता, चयन हेतु मोड और मानदंड इत्यादि से 🛘 सम्बन्धित सभी मामलों में आयोग का निर्णय उम्मीदवारों पर अन्तिम और बाध्यकारी होगा। इस सम्बन्ध में किसी पूछताछ अथवा 📗 त्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी पद हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदन को अन्तिम तिथि को
- सभी पात्रता शर्ते पूर्ण करते हैं। यदि आवेदन जमा करवाने से प्रारम्भ होकर नियुक्ति के पश्चात् भी किसी स्तर पर प्रमाणीकरण पर, यह पाया जाता है कि कोई 👢 मीदवार किसी पात्रता सर्त को पूर्ण नहीं करता है अथवा यह पाया जाता है कि प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य अथवा गलत 🛘 है. उस की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और वह आपराधिक रूप से अभियोजन के लिये उत्तरदायी भी होगा / होगी। इससे 🛭
- इसका कोई सम्बन्ध नहीं है कि उम्मीदवार द्वारा उसके आवेदन में जानकारी असत्य अथवा गलत प्रस्तुत करके लाभ दिया गया। 🛘 उम्मीदवारों की ज़ार्ट लिस्टिंग ऑनलाइन आवेदन प्रपन्न में भरे गये विवरण के आधार पर की जाएगी जिसके लिये उसे समर्थित दस्तावेज जमा / अपलोड करने होंगें। दो में किसी अंतर के मामले में उम्मीदवारी रह कर दी जाएगी। दस्तावज जमा / अपलाइ करन हाग । दा म किसा जाए का मानवा म ज्यानवार के जार का मानवार के किसा के किसा है एसएम / में कोई उम्मीदवार चाहे वह सामान्य अथवा आरक्षित श्रेणी जैसे एससी, वीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, ईएसपी, ईएसएम / में डोईएसएम, डीएफएफ अथवा पीडब्ल्यूडी (अक्षमता वाले व्यक्ति) से सम्बन्धित हैं, विज्ञापित पद की किसी विशेष श्रेणी हेतु केवल एक ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जमा करवा सकते हैं। एक से अधिक आवेदन प्रपत्र जमा करवाने पर स्वतः ही उम्मीदवारी 👖
- निरस्त हो जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग फोटो, पहचान प्रमाण अर्थात् पहचान पत्र / ड्राईविंग लाइसैंस / पासपोर्ट / बोटर कार्ड / पैन 👢 2. कार्ड / आधार कार्ड इत्यादि, सहित स्वसत्यापित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति और अपलोडेड दस्तावेजों, मूल प्रमाण-पत्रों सहित 🖡 आवेदन प्रपन्न की प्रिंटेड कॉपी सहित व्यक्तिगत रूप से किसी उम्मीदवार को बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- पीजीटी संस्कृत के 534 पद (शेष हरियाणा) 2.1 <u>पद और योग्यताओं का विवरण</u>
- स्नातकोत्तर अध्यापक (पीजीटी संस्कृत) एच.ई.एस.-॥ (ग्रुप बी सेवाएं)

माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा

- मैट्रिकुलेशन अथवा उच्चतर में हिन्दी / संस्कृत एक विषय के रूप में।
- (ii) सम्बन्धित विषय में हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटीईटी)/विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) का अर्हताप्राप्त
- (iii) उम्मीदवार का "अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड" जिसमें 10वीं/12वीं/स्नातक / स्नातकोत्तर किन्हीं 3 परीक्षाओं में, जैसा भी मामला हो, औसत 50% अंक लेने के उपरांत। तथापि उम्मीदवार को स्नातकोत्तर पीजीटी कम्प्यूटर साइंस को छोड़कर और पीजीटी

- कम्प्यटर साइंस के मामले में कम से कम 50% अंक अवश्य होने चाहिए। हम्मीटवार के स्नातकीतर / स्नातक में मामला हो, कम से कम 55% अंक होने चाहिएं।
- भागवा हा, क्षम व क्षम २००० जन्म हान भागव्य । ''एम.ए, संस्कृत / आचार्य में न्यूनतम 50% अंकों सहित और बी.एड. / शिक्षा शास्त्रों / भाग शिक्षक कोर्स (एलटीसी)/मूल प्रशिक्षण (ओटी) संस्कृत में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अथवा हरियाणा | शिक्षा विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त समकक्ष शिक्षा"।

आय : 18 - 42 वर्ष

वेतनमान : पे मेंट्रिक्स लेवल-8 में (रु. 47,600 - 1,51,100)

<u>पद (शेष हरियाणा)</u>

विषय	सामान्य	एससी	बीसीए	बोसोबी	इंडब्ल्यूएस	कुल	ईएलएम	I (5%)	। हॉरिजेंट	ल	३% पद आरक्षित					धित,	अस्थि विव	र ठारक्ति) क्लांग
							सामान्य	एससी	बीसी(ए)	बीसी(बी)	सामान्य	एसली	बीली(ए)	बंसी(बं)	सामान्य	एससी	बीरी(र	बीसी(बी)
संस्कृत	325	119	59	31	0	534	16	6	3	2	10	4	2	1	13	5	2	1

- वधिर और श्रवणवाधित
- सेरेबल पाल्सी, ठोक हुये कुष्ठ रोगी, बौनापन, एसिड अटैक पीडितों और मांसपेशी अपविकास सहित लोकोमोटर विकलांगता: डो) स्वलीनता, बौद्धिक विकलाँगता, विशिष्ट अधिगम अशक्तता तथा मानसिक बीमारी;
- धारा (ए) से (डी) के तहत बधिर दुष्टिहीन सहित चिन्हित पदों में प्रत्येक अक्षमता हेत् व्यक्तियों में से बहुअक्षमताएं
- टिप्पणी :-अनुसूचित जाति (एससी) और अक्षमता याले व्यक्ति (पोडब्ल्युडी) उम्मोदवारों से सम्बन्धित उम्मीदवारों को 5% अर्हक अंकों की छट होगी। प्रत्येक श्रेणी अर्थात सामान्य, अनुसूचित जाति (एससी) पिछड़ो श्रेणी (ए) और पिछड़ी श्रेणी (ची), ईंडब्ल्यूएस तथा पूर्व सैनिक
- (इंएसएम) में जिसमें महिलाओं हेतु 33% पट और यह आरक्षण हॉरिजेंटल होगा। प्रोफेशनल प्रशिक्षण डिप्लोमा अथवा हरियाणा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य, बोर्ड अथवा विरुविद्यालय द्वारा जारो प्रमाण-पत्र यदि ये हरियाणा सरकार द्वारा मान्वताप्राप्त हैं, की ढिग्री अथवा डिप्लोमा को मान्यता दी जाएगी।
- हरियाणा सरकार निर्देश सं. 22/6/2021-आईवोएस-III दिनांक 03.02.2021 के अनुरूप विभिन्न परिस्थितियों के तहत आयु में कुट और सरकारो
- सेवा में प्रवेश हेतु अथवा नियमित भर्ती हेतु प्रतियोगिता के लिये आयु में छूट होगो। पाननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ के सीडब्ल्यूपों सं. 2010 ऑफ 2014, सोम नाथ बनाम हरियाणा सरकार एवं अन्य के दिशा निर्देशों के अनुसार पार्डवेट पूर्वीपत. सरकारी सहायता पाज विद्यालयों मान्यतापाज विद्यालयों और सरकारी विद्यालयों में कार्व करने वाले शिक्षकों हेत 📘 कपरी आयु सीमा में उनके द्वारा की गई सेवा के आधार पर अधिकतम 5 वर्ष को छूट उसकी नियुक्ति हेतु एक बार दी जाएगी। ऐसे कार्यशील शिक्षकों 📗 हेतु. ऊपरी आबु छूट प्रमाण-पत्र संस्थान के अध्यक्ष से जारी होना आवश्यक है और इसे ढीइंओ द्वारा सत्यपित किया जाना होगा और उस पर सीबीएसई केन्द्रीय स्कूल अथवा नबोदय विद्यालय हेतु सम्बन्धित राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा काउंटर साइन किया जाना भी आवश्यक होगा।

死.	पद की श्रेणी	सामान	T .	हरियाणा राज्य के एससी/			
सं.	200	पुरुष /	महिला	बीसी / ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार			
100000		महिला	(हरियाणा निवासी)	पुरुष	महिला		
1.	श्रेणी सं. 1	ক, 500/−	ক. 125/−	रु. 125/−	₹. 75/-		
2.	हरियाणा के पूर्व सैनिक/ पीडब्ल्यूडी (अक्षमता पाले ज्यक्ति)		कोई शुल्क नहीं				

1 23 चयन हेत् मानदंड, परीक्षा व पाठयक्रम

(ii) 90 अंकों की लिखित परीक्षा दो भागों में विभाजित की जाएगी :-

(i)	पदों के चवन के सम्बन्ध में अंकों की योजना में कुल 100 अंक शामिल होंगे, जो निम्न वर्णितानुसार हैं :-								
	क्र. सं.	विषय	अंक						
	1	लिखित परीक्षा	90						
	2	सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनभव	10						

- ए) सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, गणित, विज्ञान, कम्प्युटर, अंग्रेजी, हिन्दी और लागु अनुसार सम्बन्धित अथवा सम्बद्ध विषय हेतु 75%
- बी) इतिहास, वर्तमान मामले, साहित्य, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण, हरियाणा की संस्कृति इत्यादि हेतु 25% वेटेज। (iii) सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव हेतु 10 अंक निम्नानुसार आवंटित किये जाएंगे :-प. यदि आवेदक के परिवार में से कोई व्यक्ति यथा पिता, माता, पति-पत्नी, भाई और पुत्र हरियाणा सरकार अथवा किसी अन्य राज्य | 5.
 - सरकार अथवा भारत सरकार के किसी विभाग / बोर्ड / निगम / कम्पनी / वैधानिक निकाय / आयोग / प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी 📗 💰
- नहीं है, था आथवा रहा है। यदि आवेदक निम्नलिखित है : कोई विधवा : अथवा

 - (ii) प्रथम अथवा द्वितीय संतान और ठसके पिता का देहांत 42 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व हो चुका था : अथवा (iii) प्रथम अथवा द्वितीय संतान और उसके पिता का देहांत आवेदक के 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके होने से पूर्व हो चुका था। (5 अंक) बदि कोई आबेदक किसी ऐसी डिनोटिफाइड ट्राइब (विमुक्त जातियां और टपरीवास जातियां) अथवा
- अनुसूचित जाति में और न ही पिछड़ी श्रेणी में है, से सम्बन्धित है। अनुभव :-हरियाणा सरकार के किसी विभाग / बोर्ड / निगम / कम्पनी / बैधानिक निकाय / आयोग / प्राधिकरण में उसी अथवा किसी उच्चतर पद अधिकतम 16 वर्ष में से अनुभव के 6 माह से अधिक प्रत्येक वर्ष अथवा उसके भाग हेतु आया (=0.5) अंक, 6 माह से कम की किसी
- अवधि हेत कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। (ए) <u>परीक्षा कार्यक्रम :</u>

परीक्षा या तो ऑनलाइन (सीबीटी) अथवा ओएमआर आधारित 14 मार्च 2021 के माह में आयोजित किये जाने की संभावना 🖣 है। तिथि, समय और परीक्षा का स्थान प्रवेश पत्र के अनुरूप होगा। यद्यपि एवएसएससी प्रशासनिक आधार पर अयवा अन्यद्या 🖡 उपरोक्त कार्यक्रम को पुनः निर्धारित करने 🗸 परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आवेदकों को वेबसाइट पर 🛭 नियमित रूप से पश्चारने का परामर्श दिया जाता है क्योंकि व्यक्तिगत रूप से अलग से सूचना नहीं भेजी जाएगी।

नियामक फ्रेमवर्क

- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र : <u>अनुलग्नक-ए I. ए II</u> देखें। तहसीलदार द्वारा जारी विधवा प्रमाण-पत्र : अनुलग्नक-बी [, बी][देखें।
- तहसीलदार द्वारा जारी विमुक्त जाति और टपरीवास जाति प्रमाण-पत्र : Saralharyana.gov.in अथवा जिला स्तर 🖡 अथवा तहसीलदार कार्यालय पर अंत्योदय सरल केन्द्रों को देखें। सम्बद्ध नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र : <u>अनुलग्नक डी।</u> देखें। प्वाइंट से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप में एंजीक्युटिव मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र : आवेदन प्रपत्र अपलोड किये जाने
- के लिये <u>अनुलग्नक ई1</u> देखें और संवीक्षा के समय लाया जाए।
- प्रमाण-पत्रों हेतु प्रारूप / फॉर्मेंट इस विज्ञापन के अनुलग्नक ए−1, ए−11 , बी−1, बी−11 , डी−1, ई−1 के अनुसार उपलब्ध हैं। 📕 सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत दावा, यदि कोई हो, केवल उन उम्मीदवारों को देय है, जो अपेक्षित प्रमाण-पत्र अथांत् जारी ▮ 2. सामाध्यक आधिक । मानदर के तहर दाया, याद कहा हो, कवार का उमादयात का एक, जा अपकार प्राण्य-पत्र अधार, जार ॥ करने वाले प्राधिकारों का नाम, जारी करने की तिथ और संदर्ग सं, इत्यादि का विवरण भरेंगे और उनके दावे के समर्थन में अपने अ आवेदन सहित अपेक्षित वैथ मूल प्रमाण-पत्र / दस्तावेज भी अपलोड करेंगे जिसमें विफल रहने पर, ऑनलाइन आवेदन भरने की "
- अन्तिम तिथि के पश्चात किसी प्रमाणीकरण लाभ पर विचार नहीं किया जाएगा। आरक्षण / लाभ छट इत्यादि का दावा, यदि कोई हो, केवल उन उम्मीदवारों को देय होगा, जो अपने दावे के समर्थन में अपने आवेदन 📗 के साथ हरियाणा निवासी प्रमाण-पत्र, अपेक्षित वैध मूल प्रमाण-पत्र अपलोड करेंगे।
- यदि पूर्व सैनिक अथवा पिछड़ी श्रेणी हेतु आरक्षित कोटा उपयुक्त पूर्व सैनिक अथवा उनके आश्रितों की अनुपलब्धता अथवा पिछड़ी 🛮 🔉 श्रेणियों से उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरे रह गया है, तो या तो पूर्व सैनिकों की बिना भरी गई रिक्तियों से अथवा पिछड़ी श्रेणियों से स्वतंत्रता सेनानी / उनको संतान / पीत्र-पीत्री हेतु केवल 2% आरक्षण दिया जाएगा। यह लाभ सभी 🛙 🥺 निर्देश सं. 22/10/2013-1 जीएस III. दिनांक 15.07.2014).
- आरक्षण का लाभ केवल वन एससी / बोसीए / बोसीबी / ईबब्ल्यूएस और ईएसएम उम्मीदवारों को दिया जाएगा जो हरियाणा राज्य
- एससो / बीसीए / बीसीबी / ईडब्ल्यूएस / ईएसपी और पीडब्ल्यूडी (अक्षमताओं वाले व्यक्ति) उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 🚪 दिनांक : 10.02.2021 विधिवत् जारी एससो / बीसीए / बीसीवी / ईडब्ल्युएस / ईएसपो और पीडब्ल्युडी (अक्षमताओं वाले व्यक्ति) प्रमाण-पत्र अपलोड

- करना अपेक्षित है और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जब भी ऐसा करने के लिये कहा जाये जमा करवाने अपेक्षित है। डीएफएफ को सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् जारी प्रमाण पत्र अपलोड करना अपेक्षित होगा।
- योग्यता और पात्रता के अन्य नियम व शर्ते ऑनलाइन आवेदनों की प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि निसको बंद होने की तिथि वे रूप में भी बताया गया है, के अनुसार निर्धारित किये जाएंगे।
- किसी स्तर पर कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जाएगी और अतः सभी उम्मीदवारीं को विभिन्न समाचार पत्रों में सार्वजनिक सचनाओं और वेबसाइट पर नियमित रूप से पधारना चाहिए। पदों का आरक्षण - व्यक्तियों हेत आरक्षण पत्र सं. 22/10/2013-1जीएस-III दिनांक 15.07.2014 में निहित हरियाणा सरकार वे
- निर्देशों और समय-समय पर जारी सरकारी निर्देशों के अनरूप होगा। अन्य राज्यों से सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदयारों को सामान्य श्रेणी हेत दिये गये पदों के तहत भाग लेना होगा और ऐसे उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणियों के रूप में विचार किया जाएगा क्योंकि उनके लिये कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है।
- अक्षम ईएसएम/मारे गये के आश्रित/कार्यवाही में अक्षम हेतु आरक्षण पत्र सं. 945-जीएस-II 72/6451, दिनांक 06 मार्च 1972 मे निडित हरियाणा सरकार के निर्देशों के अनुरूप होगा। ईएसएम हेतु आरक्षण नीचे दिये गये क्रम में प्रयुक्त किया जाएगा :-20% से 50% के बीच अक्षमता सहित अक्षम पूर्व सैनिक
- 50% से अधिक अक्षम्/ मारे गये सेवा कार्मिक के 2 आश्रितों तक।
- iii. अन्य पूर्व सैनिक। ■ टिप्पणी :- ऐसे लाभ को अनुमति उन पूर्व सैनिकों और उनके आरक्षितों को नहीं दी जाएगी जो उनको अवधि के पूर्ण होने के पश्चात नॉर्मल
- कोसं में रिलीज किये हैं और उनके लिये उपलब्ध है जो उनकी अक्षमता के कारण सैन्य विभाग द्वारा सेवा से बाहर किये गये हैं (सरकारी परिपत्र सं. 8047-4 जीएस II- 73/1549, दिनांक 21 जनवरी 1974 के तहत) अक्षम पूर्व सैनिकों से तात्पर्य होगा ऐसे पूर्व सैनिक जो संघ के सैन्य बलों में सेवास्त रहते समय शत्रु के विरूद्ध कार्यवाहियों मे अथवा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रो में अक्षम हुए।
- इंएसएम के आश्रितों में पत्नी/विधवा, आश्रित पुत्र/पुत्रियां शामिल होंगे और ईएसएम के आश्रित जो पदों हेतु निर्धारित योग्यताएं, आयु इत्यादि की सभी शर्तें पूर्ण करते हैं, उपयुक्त इएसएम उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की सीमा तक ईएसएम हेतु आरक्षित पदों के लिये
- लाभ का दावा करने वाले हरियाणा के डीईएसएम उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जमा करवाने की अन्तिम तिथि को वैध पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य होना चाहिए और सम्बद्ध जिला सैनिक बोर्ड से वैध पात्रता प्रमाण-पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हार ऐसा कहने पर इसे प्रस्तुत करना होगा। केवल आश्रित प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ईएसएम उम्मीदवारों को जब कभी अपेक्षित हो, डिस्चार्ज दक और सम्बद्ध जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी पहचान पत्र की सत्यापित छायाप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। यदि किसी स्तर पर प्रमाणीकरण पर यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार किसी पात्रता शर्त को पर्ण नहीं करता है अथव
- जाता है कि प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य अथवा गलत हैं, उस की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी और वह आपराधिक रूप से अभियोजन के लिये उत्तरदायी भी होगा / होगी। इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है कि उम्मीदवार को उसके आवेदन में उस विशेष पात्रता शर्त में लाभ दिया गया अथवा नहीं। किसी ऐसे बोर्ड / संस्थान / विश्वविद्यालय जो हरियाणा सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है, से डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र रखने
- वाले उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे। आबेदन प्रपत्र को ऑनलाइन भरने और विज्ञापन के सम्बद्ध में किसी मार्गदर्शन / जानकारी / स्पष्टीकरण के मामले में उम्मीदवा
- सभी कार्यदिवसों को पूर्वा. 9.00 बजे से अप. 5.00 बजे तक हैल्पलाइन नं. 01725143700 पर कॉल कर सकते हैं। l 2.5 पूर्व सैनिकों के आश्रित शब्द की परिभाषा
- . रेवाणा सरकार पत्र सं. 12/37/79-जीएस-II, दिनांक 21.11.1980 के सम्बन्ध में पूर्व सैनिकों के आश्रित शब्द की परिभाषा है विस्तितिस्वत व्यक्तियों में से कोई भी नहीं आएगा : विज्ञापित पट के तहत अथवा कहीं भी किसी प्रदर्शक आधार पर कार्य करने वाला कोर्ड व्यक्ति
- आवेदन करते समय कोई व्यक्ति बेरोजगार हो सकता है परन्तु उसके पास आय के अन्य स्रोत जैसे कृषि, व्यापार, सम्पत्ति, बैंक वैलेंस उत्यादि से आय हो। कोई व्यक्ति जो संयक्त हिन्द परिवार का सदस्य है और परिवार में बटवारे तक कर्ता पर आश्रित रहता है अथवा वह संबक्त हिन परिवार को सदस्यताँ छोड़ देता है और अपनी सारी आय कर्ता को देने के लिये बाध्य है अथवा कर्ता की सहमति सहित संयुक्त
- हिन्दु परिवार के समूह से अपनी आजीविका हेतु पैसे निकालता है। कोई उम्मीदवार जो संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य है एडहॉक आधार पर कार्यरत है परन्तु अन्यथा वह अपने पिता पर आश्रित है
- आवेदन प्रपत्र के साथ अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज (अनिवार्य)
- आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं अर्थात् जन्मतिथि और अन्य सम्बद्ध विवरण दर्शाते हुए मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र की स्कैन की हुई प्रति
- एससी।बीसीए/बीसीबी/इंडब्ल्यूएस/इंऐसपी/इंएसएम/डीइंएसएम/डीएफएफ/पीडब्ल्यूडी (अक्षमताओं वाले व्यक्ति) के मामले में सक्षम प्राधिकारो द्वारा जारी हरियाणा निवासो प्रमाण पत्र को स्कैन की हुई प्रति।
- सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव के तहत बेटेज / अंकों का दावा करने के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की स्कैन
- की हुई प्रति। उम्मीद्यार द्वारा विधिवन हस्ताक्षारित स्कैन को हुई फोटो।
- उम्मीदवार के स्कैन किये हुये हस्ताक्षर।
- उच्चतर योग्यता, अनुभव इत्यादि दर्शाते हुये सभी दस्तावेजों, जिसके आधार पर उम्मीदवार अंकों का दावा करता है, की स्कैन को हुई प्रति
- <u>वस्तावेजों की संवीक्षा</u> :- दस्तावेजों की संवीक्षा हरियाणा कर्मचारो चयन आयोग द्वारा ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन आयोजित की जा सकती है। केवल वे दस्तावेज जो उम्मोदवारों द्वारा अपलोड किये गये हैं, पर विचार किया जाएगा। यदि अपलोड किये गये दस्तावेज और संबीक्षा के समय प्रस्तुत किये गये दस्तावेज में कोई विभिन्नता पाई जाती है तो उम्मीदवारी रद किये जाने योग्य होगी। यदि कोई आवेदन अपेक्षित समर्थित दस्तावेजों और अन्य सम्बन्धित जानकारी अपलोड किये विना पाया जाता है तो इसके लिये उपमीदवार स्वयं उत्तरदायी होगा / होगी और उसको उप्मीदवारी उचित अथवा सही दस्तावेजों / जानकारी के अभाव के कारण निरस्त किये जाने योग्य होगी।
- कदाचार के अपराधी पाये गये उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्यवाही उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें कोई विवरण जो असत्य, कपट प्रबंध / काल्पनिक हैं नहीं प्रस्तुत करने चाहिएं अथवा
- आवेदन प्रपन्न भरते समय कोई मैटीरियल जानकारी नहीं छिपानी चाहिए। लिखित परीक्षा / संबीक्षा के समय, यदि कोई उम्मीदवार अग्रलिखित का अपराधी पाया जाता है (अथवा रहा है) : परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए अथवा

चयन देत अपनी उम्मीदवारी के सम्बन्य में अनचित साधनों का कोई अनियमित प्रयोग करता हुआ अथवा

- भेष बनाता हुआ अथवा किसी व्यक्ति द्वारा भेष धारण करवाता हुआ अथवा परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार करता हुआ अथवा परीक्षा हॉल से उत्तर पुस्तिका ले जाते हुए अथवा
- किसी अनुचित साधन द्वारा अपनी ठामीदवारी हेत सहायता प्राप्त करता हुआ. समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन न करने वाले उम्मीदवार अपराधिक मुकदमे के लिये स्वयं उत्तरदायों होने के
- अतिरिक्त निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी होगा / होगी :--परीक्षा / संबोक्षा, जिसके लिये वह उम्मीदबार है, से अपात्र किया जाना। एचएसएससी द्वारा आयोजित किसी परीक्षा अथवा भर्ती से या तो स्थायी रूप से अथवा एक विनिर्देश्ट अवधि हेतु वीचत किया जाना
- सेवा से बर्खास्त किया जाएगा, यदि वह पहले ही सरकारी सेवा में है। उम्मीदवार, जो <u>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जाली घोषित किये गये अथवा हरियाणा सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं होने</u> <u>व्याले</u> किसी बोर्ड / संस्थान से विभिन्न कोसी हेतु डिग्री अथवा डिप्लोगा अथवा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर चुके हैं, विज्ञाप्ति पदों की भर्ती
- हेतु विचार किये जाने के लिये पात्र नहीं होंगे और इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। टिप्पणी :- हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बॉयोमैटिक प्रक्रिया और सीसोटीवी कैमरे/वीडियोग्राफी डत्यादि द्वारा चयन के लिये ऑनलाडन आवेदन से पूर्ण भर्ती प्रक्रिया का निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

आवेदन के निरस्तीकरण के संभावित कारण

- किसी विशेष श्रेणी हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र आबेदन अपूर्ण है और ऑनलाइन नहीं है।
- पूर्ण शुल्क, यदि निर्धारित तरीके से जमा नहीं करवाया जाता है।
- वैज्ञापन में निर्धारित अनुसार हिन्दी / संस्कृत की योग्यता नहीं रखना। आवेदक कटऑफ तिथि को अंगेक्षित शैक्षिणक योग्यता नहीं रखता है।
- आवेदक आवेदन प्रपत्र के उपयुक्त कॉलम में दर्शनीय पहचान चिन्ह इंगित नहीं करता है।
- उम्मीदवार कट ऑफ तिथि / अन्तिम तिथि को कम आयु / अधिक आयु का है। मूल दस्तावेजों में और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के डाटा में भिन्तता, बदि किसी स्तर पर पता लग जाता है।

विज्ञापन में निर्धारित अनसार आवश्यक योग्यता से रहित पौत्र पीत्रियों कार्थात पुत्रों के पुत्र और पुत्रियों तथा स्वतंत्रता सेनानी की पुत्रियों (पैतृक के साथ साथ मातृत्व की) (मुख्य सचिव 📗 <u>हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में मोबाइत्न फोन और अन्य</u> इलैक्ट्रोनिक्स साधनों का उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित है।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकल

स्थान : पंचकुला

संवाद विज्ञा, सं.-1159/13/27/2021/1766/88/7 दि, 11.02.21